



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64]
No. 64]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 13, 2007/माघ 24, 1928
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 13, 2007/MAGHA 24, 1928

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2007

सा.का.नि. 82(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परनुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विशेष सेवा ब्यूरो, योधक लिपिक काडर नियम 1999 को, जहां तक उनका सम्बन्ध उपनिरीक्षक (अनुसचिवीय), सहायक उपनिरीक्षक (अनुसचिवीय), मुख्य आरक्षक (अनुसचिवीय), उप निरीक्षक (आशुलिपिक), सहायक उपनिरीक्षक (आशुलिपिक) से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुये जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल में समूह 'ख' और 'ग' योधक लिपिकीय और आशुलिपिक (अराजपत्रित) अनुसचिवीय काडर पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, योधक लिपिकीय और आशुलिपिक (अराजपत्रित) अनुसचिवीय काडर समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

3. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से पूर्व उल्लिखित अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

5. आरंभिक गठन.—1. इन नियमों के प्रारम्भ से ठीक पूर्व नियमित आधार पर उपाबद्ध अनुसूची पदों को धारण करने वाले व्यक्तियों के विषय में यह समझा जाएगा कि वे इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियुक्त किए गए हैं।

2. इन नियमों के प्रारंभ से ठीक पूर्व सम्बन्धित पदों में उपनियम (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की नियमित निरंतर सेवा, परीक्षा, प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा की प्रोन्नति, पुष्टिकरण और पेंशन के प्रयोजन के लिए संगणित की जाएगी।

6. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

7. अधिवर्षिता.—इन नियमों के अधीन नियुक्त कार्मिक उस मास के अन्तिम दिन के अपराह्न को सेवानिवृत्त होगा जिस मास में वह 57 वर्ष की आयु का हो जाए।

परन्तु ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म की तारीख मास की पहली तारीख है, सत्तावन वर्ष की आयु पूरी करने पर पूर्ववर्ती मास की अन्तिम तारीख के अपराह्न को सेवानिवृत्त हो जाएगा।

8. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

9. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
1. सूबेदार मेजर (अनुसचिवीय)	9*(2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय (योधक)	रु. 6500-200- 10500 रु. जमा नियुक्ति वेतन रु. 200 हर महीने	अचयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो		
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा
11	12
100% प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति :— जिन्होंने निरीक्षक (अनुसचिवीय) के पद पर 2 वर्ष की नियमित सेवा उस श्रेणी में की हो। उसे चिकित्सीय प्रवर्ग शेप-1 होना आवश्यक है जिसमें मनोवैज्ञानिक, श्रवण शक्ति, संलग्नक, शारीरिक क्षमता और दृष्टि की क्षमता एक होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संश्लेषक सेवा
आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, निरीक्षक (अनुसचिवीय)
की प्रोन्नति के लिए विचार करने के लिए मिलकर बनेगी :-

लागू नहीं होता।

1. महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल —अध्यक्ष
2. उपमहानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल —सदस्य
3. कमाण्डेंट, सशस्त्र सीमा बल —सदस्य

1	2	3	4	5	6
2. निरीक्षक (अनुसचिवीय)	52*(2007) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित, अनुसचिवीय (योधक)	रु. 6500-200- 10500 रु.	अवयव	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

11	12
100% प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति :-—जिन्होंने उपनिरीक्षक (अनुसचिवीय) जो सशस्त्र सीमा बल में नियमित सेवा 3 वर्ष से कम न की गई हो और कार्यालय प्रक्रिया तथा लेखा पाठ्यक्रम में अर्हता प्राप्त की है। उसे चिकित्सीय प्रवर्ग श्रेणी-1 होना आवश्यक है जिसमें मनोवैज्ञानिक, शारीरिक शक्ति, संलग्नक, शारीरिक क्षमता और दृष्टि की क्षमता एक होनी।

13

14

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति, उपनिरीक्षक (अनुसचिवीय)
की प्रोन्नति के लिए विचार करने के लिए मिलकर बनेगी:-

लागू नहीं होता।

1. महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल —अध्यक्ष
2. उपमहानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल —सदस्य
3. कमाण्डेंट, सशस्त्र सीमा बल —सदस्य

1	2	3	4	5	6
3. उपनिरीक्षक (अनुसचिवीय)	132*(2007) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ग अराजपत्रित, अनुसचिवीय (योधक)	रु. 5500-175- 9000 रु.	अवयव	लागू नहीं होता

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
11	12		
<p>(1) 75% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बल और राज्य/केन्द्रीय शासित प्रदेश के पुलिस बल से प्रतिनियुक्ति द्वारा; और</p> <p>(2) 25% सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।</p>			
<p>प्रोन्नति द्वारा :</p> <p>प्रोन्नति :- जिन्होंने सहायक उपनिरीक्षक (अनुसचिवीय) जो सशस्त्र सीमा बल में नियमित सेवा 5 वर्ष से कम न की गई हो और कार्यालय प्रक्रिया तथा रोकड़ तथा लेखा पाठ्यक्रम में अर्हता प्राप्त की है।</p> <p>उसे चिकित्सीय प्रवर्ग शेष-1 में होना आवश्यक है जिसमें मनोवैज्ञानिक, श्रवण शक्ति, संलग्नक, शारीरिक क्षमता और दृष्टि की क्षमता एक होगी।</p> <p>सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा :</p> <p>सशस्त्र सीमा बल के ऐसे सहायक उपनिरीक्षकों (अनुसचिवीय) जो चिकित्सीय प्रवर्ग शेष-1 जिसमें मनोवैज्ञानिक, श्रवण शक्ति, संलग्नक, शारीरिक क्षमता और दृष्टि की क्षमता एक होगी तथा जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष से अन्यून की नियमित सेवा की है और सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् पैनल में है, उसके लिए पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा:-</p> <p>(1) नियम और विनियम;</p> <p>(2) टिप्पण, पारूपण और सार लेखन।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों तथा राज्य/केन्द्रीय शासित प्रदेश के पुलिस बल के अधिकारी:-</p> <p>(i) जो सदृश पदों पर नियमित कार्य कर रहे हों; या</p> <p>(ii) वे सहायक उपनिरीक्षक (अनुसचिवीय) जिन्होंने 5 वर्ष तक रु. 4000-100-6000 के वेतनमान पर नियमित कार्य किया हो; तथा</p> <p>जो चिकित्सीय प्रवर्ग शेष-1 हो जिसमें मनोवैज्ञानिक, श्रवण शक्ति, संलग्नक, शारीरिक क्षमता और दृष्टि की क्षमता एक होगी।</p> <p>(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>			
13	14		
<p>सम्बद्ध "ख" के विभागीय प्रोन्नति समिति, सहायक उपनिरीक्षक (अनुसचिवीय) की प्रोन्नति के लिए विचार करने के लिए भिलकार बनेगी:-</p> <p>1. उपमहानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल —अध्यक्ष</p> <p>2. दो कमाण्डेंट, सशस्त्र सीमा बल —सदस्य</p>		लागू नहीं होता।	

1	2	3	4	5	6
4. सहायक उपनिरीक्षक (अनुसचिवीय)	218*(2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साम्भारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय (योधक)	रु. 4000-100-6000 रु.	अध्यक्ष	लागू नहीं होता
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		

11	12
100% प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर अन्य केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बल और राज्य/केन्द्रीय शासित प्रदेश के पुलिस बल से प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p>प्रोन्नति द्वारा:- सशस्त्र सीमा बल के ऐसे मुख्य आरक्षकों (अनुसचिवीय) में से प्रोन्नति, जिन्होंने उस श्रेणी में 5 वर्ष की नियमित सेवा की है और बुनियादी कार्यालय प्रक्रिया तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोजन पाठ्यक्रम में अर्हता प्राप्त की है, इसके लिए पाठ्यक्रम विम्बानुसार होगा :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कार्यालय प्रक्रिया ; 2. सूचना प्रौद्योगिकी (अक्षर) <p>उसे चिकित्सीय प्रवर्ग श्रेणी-1 में होना आवश्यक है जिसमें मनोवैज्ञानिक, श्रवण शक्ति, संलग्नक, शारीरिक क्षमता और दृष्टि की क्षमता एक होगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय पुलिस बल, अर्द्ध सैनिक बल और राज्य/केन्द्रीय शासित प्रदेश के पुलिस बल के ऐसे अधिकारी :-</p> <p>(i) जो नियमित सम्पन्नक या सदृश पदों पर कार्य कर रहे हों, आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं;</p> <p style="text-align: center;">अथवा</p> <p>(ii) जिन्होंने 3200-85-4900 या समान वेतनमान में मुख्य आरक्षक (अनुसचिवीय) की श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो चिकित्सीय श्रेणी जिसमें मनोवैज्ञानिक, श्रवण शक्ति, संलग्नक, शारीरिक क्षमता और दृष्टि की क्षमता एक हो।</p> <p>(योधक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभागीय में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काष्ठर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

13	14
समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति, मुख्य आरक्षक (अनुसचिवीय) की प्रोन्नति के लिए विचार करने के लिए मिलकर बनेगी :-	लागू नहीं होता।
1. उपमहानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल	-अध्यक्ष
2. दो कमाण्डेंट, सशस्त्र सीमा बल	-सदस्य

1	2	3	4	5	6
5. मुख्य आरक्षक (अनुसचिवीय)	273*(2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय (योधक)	रु. 3200-85- 4900 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10
18 से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 3 वर्ष की छूट दी जा सकती है व सरकारी सेवाओं तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार।	1. मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय सीनियर सैकण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट (10+2) परीक्षा या समतुल्य परीक्षा पास की हो। 2. मैट्रिकुलेशन के साथ मान्यताप्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सचिवालयीय कार्य या आधुनिक कार्यालय कार्य या वाणिज्यिक कार्य में तीन वर्ष का डिप्लोमा।	लागू नहीं होता	दो वर्ष
टिप्पण: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	3. सामान्य श्रेणी या अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। 4. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में कम से कम 20 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए।		

(ग) कम्प्यूटर उपयोजन का आधारिक ज्ञान होना चाहिए।

पुरुष के लिए शारीरिक मानक :

(i) ऊंचाई : 167.5 सें. मी.

(ii) सीना : 81 सें. मी.

(फुलाने के पश्चात् 86 सें. मी.)

(iii) वजन : ऊंचाई के तत्समान

टिप्पण 1. ऊंचाई से सम्बन्धित न्यूनतम मानक मूलवंशियों अर्थात् गढ़वाल, कुमायू, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, लेह और लद्दाख, कश्मीर घाटी, उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमाचल प्रदेश राज्य में रहने वाले व्यक्तियों की बाबत 165 सें. मी. तक शिथिल किया जा सकता है।

2. आदिवासी/जनजातियों जिसमें मिजो और नागा भी हैं, की बाबत, ऊंचाई से सम्बन्धित न्यूनतम मानक 162.5 सें. मी. तक शिथिल किया जा सकता है।

3. सीने की माप से सम्बन्धित न्यूनतम मानक अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 81 सें.मी. बिना फुलाव के और फुलाव के साथ 86 सें.मी., 78 सें.मी. बिना फुलाव के व फुलाव के साथ 83 सें.मी. शिथिल किया जा सकता है।

स्त्री के लिए शारीरिक मानक :

(i) ऊंचाई : 157 सें.मी.

(ii) सीना : सीने का कोई न्यूनतम माप नहीं होगा

(iii) वजन : ऊंचाई के अनुसार

टिप्पण : ऊंचाई से सम्बन्धित न्यूनतम मानक मूलबंशियों अर्थात् गढ़वाल, कुमायूँ गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, सेह और सदराख, कश्मीर घाटी, उच्च पूर्वी राज्यों और हिमाचल प्रदेश राज्य में रहने वाले व्यक्तियों की बाबत 155 सें.मी. तक शिथिल किया जा सकता है।

2. अनुसूचित जनजातियों जिसमें मिजो और नागा भी हैं, की बाबत, ऊंचाई से सम्बन्धित न्यूनतम मानक 152.5 सें.मी. तक शिथिल किया जा सकता है।

(घ) पूर्णतया चिकित्सक दृष्टया योग्य होना चाहिए। (दोनों आंखों की नेत्रदृष्टि 6/6 और 6/9 बिना सुट्टि के अर्थात् बिना चश्मे/लेंस पहने)।

11

- (i) 70% सीधी भर्ती द्वारा
(ii) 30% विभागीय परीक्षा के माध्यम से ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

12

सशस्त्र सीमा बल के ऐसे मुख्य आरक्षक या नायक या लांस नायक या आरक्षक जिन्होंने इस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और सशस्त्र सीमा बल के ऐसे समूह 'ब' कर्मचारियों (बोधक) में से जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और स्तंभ 8 के अधीन निर्धारित अर्हताएं रखता हो, विभागीय परीक्षा द्वारा चयन।

चिकित्सकीय शेष-1 होना आवश्यक है जिसमें मनोवैज्ञानिक, क्रवण शक्ति, संलग्नक, शारीरिक क्षमता और दृष्टि की क्षमता एक होगी।

13

समूह 'ग' के विभागीय प्रोन्नति समिति, आभेलेन के हेतु गठन हेतु :

14

लागू नहीं होता।

- | | |
|--|----------|
| 1. कमाण्डेंट सशस्त्र सीमा बल | —अध्यक्ष |
| 2. उप सेनानायक या उप कमाण्डेंट सशस्त्र सीमा बल | —सदस्य |
| 3. सहायक सेनानायक, सशस्त्र सीमा बल | —सदस्य |

1	2	3	4	5	6
6. सुबेदार मेजर (व्यक्तिक सहायक)	2*(2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय (योधक)	रु. 6500-200- 10500 जमा नियुक्ति वेतन रु. 200 हर महीने	अचयन	लागू नहीं होता
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
11	12				
100% प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : जिन्होंने निरीक्षक (आशुलिपिक) के पद पर 2 वर्ष की नियमित सेवा उस श्रेणी में की हो। प्रोन्नति के लिए चिकित्सीय शेष-1 होना आवश्यक है जिसमें मनोवैज्ञानिक, श्रवण शक्ति, संलग्नक, शारीरिक क्षमता और दृष्टि की क्षमता एक होगी।				
13	14				
समूह "ख" के विभागीय प्रोन्नति समिति, निरीक्षक (आशुलिपिक) की प्रोन्नति के लिए विचार करने के लिए मिलकर बनेगी :-					लागू नहीं होता।
1. महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल	-अध्यक्ष				
2. उपमहानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल	-सदस्य				
3. कमाण्डेंट, सशस्त्र सीमा बल	-सदस्य				
1	2	3	4	5	6
7. निरीक्षक (व्यक्तिक सहायक)	9*(2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय (योधक)	रु. 6500-200- 10500	अचयन	लागू नहीं होता।
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष		
11	12				
100% प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : जिन्होंने उपनिरीक्षक (आशुलिपिक) जो सशस्त्र सीमा बल में नियमित सेवा 3 वर्ष से कम न की गई हो। उसे चिकित्सीय शेष-1 होना आवश्यक है जिसमें मनोवैज्ञानिक, श्रवण शक्ति, संलग्नक, शारीरिक क्षमता और दृष्टि की क्षमता एक होगी।				
13	14				
समूह "ख" के विभागीय प्रोन्नति समिति, उपनिरीक्षक (आशुलिपिक) की प्रोन्नति के लिए विचार करने के लिए मिलकर बनेगी :-					लागू नहीं होता।
1. महानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल	-अध्यक्ष				
2. उपमहानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल	-सदस्य				
3. कमाण्डेंट, सशस्त्र सीमा बल	-सदस्य				

1	2	3	4	5	6
8. उप निरीक्षक (आशुलिपिक)	16*(2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अनुसचिवीय) (योधक)	रु. 5500-175- 9000	अचयन	लागू नहीं होता
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		

11	12
100% प्रोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर अन्य केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल और राज्य/केन्द्रीय शासित प्रदेश के पुलिस बल से प्रतिनियुक्ति द्वारा।	<p>प्रोन्नति द्वारा:-</p> <p>प्रोन्नति : जिन्होंने सहायक उपनिरीक्षक (आशुलिपिक) जो सशस्त्र सीमा बल में नियमित सेवा 5 वर्ष से कम न की गई हो।</p> <p>उसे चिकित्सीय प्रवर्ग शेष-1 में होना आवश्यक है जिसमें मनोवैज्ञानिक, श्रवण शक्ति, संलग्नक, शारीरिक क्षमता और दृष्टि की क्षमता एक होगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों तथा राज्य/केन्द्रीय शासित प्रदेश के पुलिस बल के अधिकारी :-</p> <p>(i) जो सदृश पदों पर नियमित कार्य कर रहे हों; या</p> <p>(ii) वे सहायक उपनिरीक्षक (अनुसचिवीय) जिन्होंने 5 वर्ष तक रु. 4000-100-6000 के वेतनमान पर नियमित कार्य किया हो तथा जो चिकित्सीय प्रवर्ग शेष-1 हों।</p> <p>जिसमें मनोवैज्ञानिक, श्रवण शक्ति, संलग्नक, शारीरिक क्षमता और दृष्टि की क्षमता एक होगी।</p> <p>(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभागीय में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>

13	14
समूह "ख" के विभागीय प्रोन्नति समिति, सहायक उपनिरीक्षक (आशुलिपिक) की प्रोन्नति के लिए विचार करने के लिए मिलकर बनेगी :-	लागू नहीं होता।
1. उपमहानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल	-अध्यक्ष
2. दो कमाण्डेंट, सशस्त्र सीमा बल	-सदस्य

1	2	3	4	5	6
9. सहायक उपनिरीक्षक (आशुलिपिक)	43*(2007) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय (योधक)	रु. 4000-100- 6000	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10
<p>18 से 25 वर्ष के बीच केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 3 वर्ष की छूट की जा सकती है व सरकारी सेवकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार ।</p> <p>टिप्पणः आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख जो असम, मेघालय अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।</p>	<p>(क) मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय सीनियर सैकन्डरी स्कूल सर्टिफिकेट (10+2) परीक्षा या इंटरमीडिएट या समतुल्य परीक्षा; या मैट्रिकुलेशन के साथ मान्यताप्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से सचिवालय कार्य या आधुनिक कार्यालय कार्य या वाणिज्यिक कार्य में तीन वर्ष का डिप्लोमा ।</p> <p>(ख) निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए :—</p> <p>(i) उसे लिखित प्रतियोगिता परीक्षा ।</p> <p>(ii) सामान्य श्रेणी या अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अंग्रेजी टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट न्यूनतम गति ।</p> <p>(iii) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में कम से कम 20 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए ।</p> <p>(iv) सामान्य श्रेणी या अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अंग्रेजी आशुलिपि में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी आशुलिपि में कम से कम 60 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए।</p> <p>(v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए अंग्रेजी आशुलिपि में न्यूनतम 70 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी आशुलिपि में कम से कम 50 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए ।</p> <p>(ग) कम्प्यूटर उपयोजन का आधारिक ज्ञान होना चाहिए।</p> <p>(घ) पुरुष के लिए शारीरिक मानक :</p> <p>(i) ऊंचाई : 167.5 सें. मी.</p> <p>(ii) सीना : 81 सें. मी.</p> <p>(फुलाने के पश्चात् 86 सें. मी.)</p> <p>(iii) वजन : ऊंचाई के तत्समान</p> <p>टिप्पण : 1. ऊंचाई से सम्बन्धित न्यूनतम मानक मूलवंशियों अर्थात् गढ़वाल, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, लेह और लद्दाख, कश्मीर घाटी, उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमाचल प्रदेश राज्य में रहने वाले व्यक्तियों की बाबत 165 सें. मी. तक शिथिल किया जा सकता है ।</p> <p>2. आदिवासी/जनजातियों जिसमें मिजो और नागा भी हैं, की बाबत, ऊंचाई से संबंधित न्यूनतम मानक 162.5 सें. मी. तक शिथिल किया जा सकता है ।</p>	<p>लागू नहीं होता</p>	<p>दो वर्ष</p>

3. सीने की माप से सम्बन्धित न्यूनतम मानक अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः 81 सें. मी. बिना फुलाव के और फुलाव के साथ 86 सें. मी. से 78 सें. मी. बिना फुलाव के व फुलाव के साथ 83 सें. मी. शिथिल किया जा सकता है।

5. स्त्री के लिए शारीरिक मानक :

(i) ऊंचाई : 157 सें. मी.

(ii) सीना : सीने का कोई न्यूनतम माप नहीं होगा

(iii) वजन : ऊंचाई के तत्समान

टिप्पण : 1. ऊंचाई से सम्बन्धित न्यूनतम मानक मूलवंशियों अर्थात् गढ़वाल, कुमायुं, गोरखा, डोगरा, मराठा, सिक्किम, लेह और लद्दाख, कश्मीर घाटी, उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमाचल प्रदेश राज्य में रहने वाले व्यक्तियों की बाबत 155 सें. मी. तक शिथिल किया जा सकता है।

2. अनुसूचित जनजातियों जिसमें मिजो और नागा भी हैं, की बाबत, ऊंचाई से सम्बन्धित न्यूनतम मानक 162.5 सें. मी. तक शिथिल किया जा सकता है।

(च) पूर्णतया चिकित्सक दृष्ट्या योग्य होना चाहिए। (दोनों आंखों की नेत्रदृष्टि 6/6 और 6/9 बिना शुद्धि के अर्थात् बिना चश्मा/लेंस पहने)।

11

12

- (i) 85% सीधी भर्ती द्वारा
(ii) 15% विभागीय परीक्षा के माध्यम से ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा।

सशस्त्र सीमा बल के ऐसे मुख्य आरक्षक या नायक या लॉस नायक या आरक्षक जिन्होंने इस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और सशस्त्र सीमा बल के ऐसे समूह 'घ' कर्मचारियों (योधक) में से जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो और स्तंभ 8 के अधीन निर्धारित अर्हताएँ रखता हो, विभागीय परीक्षा द्वारा चयन।

चिकित्सकीय शेष-1 होना आवश्यक है जिसमें मनोवैज्ञानिक, श्रवण शक्ति, संलग्नक शारीरिक क्षमता और दृष्टि की क्षमता एक होगी।

13

14

समूह 'ग' के विभागीय प्रोन्नति समिति, आमेलन के हेतु गठन हेतु :

लागू नहीं होता।

1. उपमहानिरीक्षक, सशस्त्र सीमा बल

—अध्यक्ष

2. दो कमाण्डेंट, सशस्त्र सीमा बल

—सदस्य

[फा. सं. 4/2/एस. एस. बी./सी. एस. सी./वाहिनी/03/एस. एफ. एस.]

मनोज अग्रवाल, निदेशक (कार्मिक)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2007

G.S.R. 82 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of Special Service Bureau, Combatised Clerical Cadre Rules, 1999, so far as they relate to the post of Sub-Inspector (Ministerial), Assistant Sub-Inspector (Ministerial), Head Constable (Ministerial), Sub-Inspector (Stenographer) and Assistant Sub-Inspector (Stenographer), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the Group 'B' and Group 'C' posts in the Ministry of Home Affairs, Sashastra Seema Bal, Combatised Clerical and Stenographers (Non-Gazetted) Ministerial Service namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Sashastra Seema Bal, Combatised Ministerial and Stenographers (Non-Gazetted) Group 'B' and 'C' Posts Recruitment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the posts, their classification and the scales of pay attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.—The method of recruitment of the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

5. Initial constitution.—The incumbents of the posts specified in the Schedule holding the said posts on regular basis in accordance with the provision of the Special Service Bureau, Combatised Clerical Cadre Rules, 1999, made by Cabinet Secretariat vide No. A-12018/3/99-DO.I/1169 dated 18-11-99 shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules and their regular and continuous service in their respective posts immediately before the commencement of these rules shall be accounted for the purpose of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension.

6. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and to other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. Superannuation.—The personnel appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of the month in which he attains the age of fifty seven years :

Provided that the person whose date of birth is the first of the month shall retire from service on the afternoon of the last date of the preceding month on attaining the age of fifty seven years.

8. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

10. Liability of service.—Any person appointed under the provision of these rules shall be liable to serve anywhere in India.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Subedar Major (Ministerial)	9* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial (Combatised)	Rs. 6500-200-10500 Plus Rs. 200 per month as appointment pay.	Non-Selection	Not applicable
Age limit for direct recruits		Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
(7)		(8)	(9)		(10)
Not applicable		Not applicable	Not applicable		Not applicable
Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods			In case of recruitment by promotion or deputation or absorption or re-employment grades from which promotion or deputation or absorption or re-employment to be made		
(11)			(12)		
100% by promotion			Promotion from amongst Inspector (Ministerial) of Sashastra Seema Bal having not less than two year regular service in the grade. He should be in the medical category "SHAPE-I" i.e. psychological, hearing, appendages, physical capacity, eyesight-1.		
If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition			Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment		
(13)			(14)		
Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering Inspector (Ministerial) for promotion :—			Not applicable		
1.	Inspector General Sashastra Seema Bal	—Chairman			
2.	Deputy Inspector General Sashastra Seema Bal	—Member			
3.	Commandant Sashastra Seema Bal	—Member			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Inspector (Ministerial)	52* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial (Combatised)	Rs. 6500-200-10500	Non-Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two Years		
(11)	(12)				
100% by promotion	By Promotion : Promotion from amongst Sub- Inspector (Ministerial) of the Sashastra Seema Bal with not less than three years regular service in the grade who have qualified "Office Procedure Course" and "Cash and Accounts Course". He should be in the medical category "SHAPE-1" i.e. psychological, hearing, appendages, physical capacity, eyesight-1.				
(13)	(14)				
Group 'B' Departmental Promotional Committee for considering Sub-Inspector (Ministerial) for promotion :— 1. Inspector General Sashastra Seema Bal —Chairman 2. Deputy Inspector General, Sashastra Seema Bal —Member 3. Commandant Sashastra Seema Bal —Member	Not applicable.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Sub-Inspector (Ministerial)	132* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial (Combatised)	Rs.5500-175-9000	Non-Selection	Not applicable
(7)	(8)	(9)	(10)		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable		
(11)	(12)				
(i) 75% by promotion Failing which by deputation from Central Police Forces and State of Union Territory Police; and (ii) 25% by selection through Limited Departmental Competitive Examination failing which by deputation	By promotion : Promotion from amongst Assistant Sub-Inspector (Ministrial) of Sashastra Seema Bal having not less than five years regular service in the grade and having qualified "Office Procedure Course" and "Cash and Account Course". He should be in the medical category "SHAPE-1" i.e. psychological, hearing, appendages, physical capacity, eyesight-1. By Selection through Limited Departmental Competitive Examination : From amongst Assistant Sub-Inspector (Ministerial) of Sashastra Seema Bal having medical category "SHAPE-1" ie. psychological, hearing, appendages, physical capacity, eyesight-1 with not less than three years regular service in the grade and empanelled after qualifying Limited Departmental Competitive Examination. The syllabus for the examination shall be as follows :— (1) Rules and Regulations; (2) Noting, Drafting and Precis Writing.				

(12)

Deputation : Officers of the Central Police Forces and State or Union Territory Police :—

- (i) holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) with five years regular service in the grade of Assistant Sub-Inspector (Ministerial) in the pay scale of Rs. 4000-100-6000 having medical category "SHAPE-1" i.e. psychological, hearing appendages, physical capacity, eyesight-1.

(The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

The Upper age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 52 years as on the closing date of receipt of application).

(13)

(14)

Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering Assistant Sub-Inspector (Ministerial) for promotion :—

Not applicable

1. Deputy Inspector General Sashastra Seema Bal —Chairman
2. Two Commandants Sashastra Seema Bal —Members

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Assistant Sub-Inspector (Ministerial)	218* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial (Combatised)	Rs.4000-100-6000	Non-Selection	Not applicable
(7)	(8)	(9)	(10)		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable		

(11)

(12)

100% by promotion failing which by deputation from Central Police Forces and State or Union Territory Police.

By promotion :

Promotion from amongst Head Constable (Ministerial) having five years regular service in the grade and having qualified "Basic Office Procedure" and "Computer Application Course". The syllabus for which shall be as follows :—

- (1) Office Procedure.
- (2) Information Technology (basic).

He should be in the medical category "SHAPE-1" i.e. psychological, hearing, appendages, physical capacity, eyesight-1.

(12)

By Deputation :

Officers of the Central Police Forces and State or Union Territory Police.—

- (i) holding analogous posts on regular basis; or
- (ii) with five years regular service in the grade of Head Constable (Ministerial) in the pay scale of Rs. 3200-85-4900 and having medical category "SHAPE-1" i.e. psychological, hearing appendages, physical capacity, Eyesight-1.

(The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

The Upper age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 52 years as on the closing date of receipt of application).

(13)

(14)

Group 'C' Departmental Promotional Committee for considering Head Constable (Ministerial) for promotion :—

Not applicable.

1. Deputy Inspector General Sashastra Seema Bal —Chairman
2. Two Commandants Sashastra Seema Bal —Members

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Head Constable (Ministerial)	273* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial (Combatised)	Rs. 3200-85-4900	Non applicable	Not applicable
(7)	(8)	(9)	(10)		
Between 18-25 years. (Upper age limit shall be relaxable by five years for Scheduled Castes & Scheduled Tribes and three years for Other Backward classes. Also relaxable for Government Servant & Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.)	(a) Senior Secondary School Certificate (10+2) examination or Intermediate or equivalent examination of a recognized Board or University. Or Matriculation with three years' Diploma in Secretarial Practice or Modern Office Practice or Commercial Practice from a recognized Board of Technical Education. (b) Should qualify :— (i) Competitive written examination. (ii) A minimum speed of 30 words per minute in English Typewriting or 25 words per minute in Hindi Typewriting for General Category and Other Backward	Not applicable	Two years		
Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date					

(7)

prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman, Nicobar Islands and Lakshadweep).

(8)

Class Candidates.

(iii) A minimum speed of 25 words per minute in English Typewriting or 20 words per minute in Hindi Typewriting for Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates.

(c) Should have basic knowledge in Computer application.

(d) Physical Standards for male :—

Height : 167.5 cms

Chest : 81 cms (86 cms after expansion)

Weight : Corresponding to Height

Note (1) The minimum standard so far as it relates to height may be relaxed to 165 cms in respect of persons belonging to the races, namely Garhwalis, Kumaonese, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies, persons hailing from Leh and Ladakh, Kashmir valley, North Eastern States and the State of Himachal Pradesh.

(2) The Minimum standard so far as it relates to height may be relaxed to 162.5 cms in respect of Scheduled Tribes including Mizos and Nagas.

(3) The Minimum standard so far as it relates to chest measurements may be relaxed from 81 cms unexpanded and 86 cms expanded to 78 cms unexpanded and 83 cms expanded respectively for Scheduled Tribes.

(e) Physical standards for female :

Height : 157 cms

Chest : No minimum requirement of chest.

Weight : Corresponding to Height

Note (1) The minimum standard so far as it relates to height may be relaxed to 155 cms in respect of persons belonging to the races, namely, Garhwalis, Kumaonese, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies, Persons hailing from Leh and Ladakh, Kashmir valley, North Eastern States and the State of Himachal Pradesh.

(2) The minimum standard so far as it relates to height may be relaxed to 152.5 cms in respect of Scheduled Tribes including Mizos and Nagas.

(f) Should be medically fit in all respects, (Eye sight 6/6 and 6/9 of two eyes without correction, i.e., without wearing spectacles/lenses).

(11)	(12)
(i) 70% by direct recruitment. (ii) 30% by selection through limited departmental competitive examination failing which by direct recruitment.	By Selection through Limited Departmental Competitive Examination : (i) By selection through limited departmental competitive examination from amongst Head Constables or Naik of Lance Naik or Constables with three years of regular service in the grade and Group 'D' employees (combatised) of Sashastra Seema Bal with five years of regular service in the grade and possessing qualifications prescribed under column 8. (ii) He should be in the medical category "SHAPE-1" i.e. psychological, hearing, appendages, Physical capacity, eyesight-1.

(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee for confirmation :—	Not applicable.
1. Commandant, Sashastra Seema Bal	—Chairman
2. Second-in-Command or Deputy Commandant, Sashastra Seema Bal	—Member
3. Assistant Commandant, Sashastra Seema Bal	—Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Subedar Major (Personal Assistant)	2* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial (Combatised)	Rs. 6500-200-10500 Plus Rs. 200 per month as appointment pay.	Non-selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(11)	(12)
100% by promotion.	By Promotion : Promotion from amongst Inspector (Personal Assistant) of Sashastra Seema Bal having not less than two years regular service in the grade. He should be in the medical category "SHAPE-1" i.e. psychological, hearing, appendages, physical capacity, eyesight-1.

(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering Inspector (Personal Assistant) for promotion :—	Not applicable.
1. Inspector General, Sashastra Seema Bal	—Chairman
2. Deputy Inspector General, Sashastra Seema Bal	—Member
3. Commandant, Sashastra Seema Bal	—Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Inspector (Personal Assistant)	9* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial (Combatised)	Rs. 6500-200-10500	Non-selection	Not applicable
(7)	(8)	(9)	(10)		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years		
(11)	(12)				
100% by promotion.	By Promotion : Promotion from amongst Assistant Sub-Inspector (Stenographer) of Sashastra Seema Bal having not less than two years regular service in the grade. He should be in the medical category "SHAPE-1" i.e. psychological hearing, appendages, physical capacity, eyesight-1.				
(13)					(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee for considering Sub Inspector (Personal Assistant) for promotion :—					Not applicable.
1. Inspector General, Sashastra Seema Bal —Chairman					
2. Deputy Inspector General, Sashastra Seema Bal —Member					
3. Commandant, Sashastra Seema Bal —Member					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Sub Inspector (Stenographer)	16* (2007) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial (Combatised)	Rs. 5500-175-9000	Non-selection	Not applicable
(7)	(8)	(9)	(10)		
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable		
(11)	(12)				
100% by promotion failing which by deputation from Central Police Force and State or Union Territory Police.	By Promotion : Promotion from amongst Assistant Sub-Inspector (Stenographer) of Sashastra Seema Bal having not less than five years regular service in the grade. He should be in the medical category "SHAPE-1" i.e. psychological, hearing, appendages, physical capacity, eyesight-1. By Deputation : Officers of the Central Police Forces and State or Union Territory Police.— (i) holding equivalent rank on regular basis; or (ii) Assistant Sub-Inspector (Steno) with five years regular service in the pay scale of Rs. 4000—6000 having medical category "SHAPE-1" i.e. psychological, hearing, appendages, physical capacity, eyesight-1.				

(12)

(The departmental candidates in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

The upper age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 52 years as on the closing date of receipt of application).

(13)

(14)

Group 'C' Departmental Promotional Committee for considering Assistant Sub-Inspector (Stenographer) for promotion :—

Not applicable.

1. Deputy Inspector General, Sashastra Seema Bal --Chairman
2. Two Commandant, Sashastra Seema Bal --Members

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. Assistant Sub-Inspector (Stenographer).	43* (2005) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services Group 'C', (Combatised Ministerial Non-Gazetted).	Rs.4000-100-6000	Non-applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18-25 years. (Upper age limit shall be relaxable by five years for Scheduled Castes & Scheduled Tribes and three years for Other Backward Classes. Also relaxable for Government Servant & Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government for time to time.)	(a) Senior Secondary School Certificate (10+2) examination or Intermediate or equivalent examination of a recognized Board/ University. Or Matriculation with three years' Diploma in Secretarial Practice or Modern Office Practice or Commercial Practice from a recognized Board of Technical Education. (b) Should qualify :— (i) Competitive written examination. (ii) A minimum speed of 40 words per minute in English Typewriting or 30 words per minute in Hindi Typewriting for General Category and Other Backward Class Candidates. (iii) A minimum speed of 30 words per minute in English Typewriting or 20 words per minute in Hindi Typewriting for Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates. (iv) A minimum speed of 80 words per minute in English or 60 words per minute in Hindi Stenography for General Category and Other Backward Class candidates.	Not applicable	Two years
Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman, Nicobar Islands and Lakshadweep).			

(7)

(8)

(9)

(10)

(v) A minimum speed of 70 words per minute in English or 50 words per minute in Hindi Stenography for Scheduled Caste and Scheduled Tribe candidates.

(c) Should have basic knowledge in Computer application.

(d) Physical Standards for male :—

Height : 167.5 cms

Chest : 81 cms (86 cms after expansion)

Weight : Corresponding to Height

Note (1) The minimum standard so far as it relates to height may be relaxed to 165 cms in respect of persons belonging to the races, namely Garhwalis, Kamaonese, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies, persons hailing from Leh and Ladakh, Kashmir Valley, North Eastern States and the State of Himachal Pradesh.

(2) The Minimum standard so far as it relates to height may be relaxed to 162.5 cms in respect of Scheduled Tribes including Mizos and Nagas.

(3) The Minimum standard so far as it relates to chest measurements may be relaxed from 81 cms unexpanded and 86 cms expanded to 78 cms expanded and 83 cms expanded respectively for Scheduled Tribes.

(e) Physical standards for female :

Height : 157cms.

Chest : No minimum requirement of chest.

Weight : Corresponding to Hight.

Note (1) The minimum standard so far as it relates to height may be relaxed to 155 cms in respect of persons belonging to the races, namely Garhwalis, Kamaonese, Gorkhas, Dogras, Marathas, Sikkimies, Persons hailing from Leh and Ladakh, Kashmir Valley, North Eastern States and the State of Himachal Pradesh.

(2) The minimum standard so far as it relates to height may be relaxed to 152.5 cms in respect of Scheduled Tribes including Mizos and Nagas.

(f) Should be medically fit in all respects, (Eye sight 6/6 and 6/9 of two eyes without correction i.e. without wearing spectacles/ lenses).

(11)	(12)
(i) 85% by direct recruitment. (ii) 15% by selection through a limited departmental competitive examination failing which by direct recruitment.	By Selection through Limited Departmental Competitive Examination : (i) By selection through limited departmental competitive examination from amongst Head Constables or Naik of Lance Naik or Constables with three years of regular service in the grade and Group 'D' employees (combatised) of Sashastra Seema Bal with five years of regular service in the grade and possessing qualifications prescribed under column 8. (ii) He should be in the medical category "SHAPE-1" i.e. psychological, hearing, appendages, Physical capacity, Eyesight-1.
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotional Committee for confirmation :—	Not applicable
1. Deputy Inspector General, Sashastra Seema Bal	—Chairman
2. Two Commandants, Sashastra Seema Bal	—Members

[F. No. 4/2/SSB/CSC/BN/03/SFS]
 MANOJ AGGARWAL, Director (Pers)